

भांग खाद्य पदार्थ और ड्राइविंग का मेल नहीं।

सी ऐ ऐ द्वारा भांग खाद्य पदार्थों पर प्रमाण आधारित जानकारी और अनुकरण संग्रह किए गए हैं ताकि आप और आपके प्रियजन सड़क पर सुरक्षित रह सकें।

नशे में ड्राइव करना खतरनाक है

भांग का सेवन आपके प्रक्रिया समय में देरी करता है और निर्णय लेने की क्षमता को खराब करता है, जिस से आपकी ड्राइविंग नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। इन्हीं कारणों की वजह से, भांग खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद ड्राइव करना सुरक्षित नहीं है।

नशे में ड्राइविंग के नकारात्मक नतीजे हैं

नशे में ड्राइव करना आपको, आपके यात्रियों और सड़क पर अन्य ड्राइवरों को खतरे में डालता है। यह एक गंभीर अपराध है जिसका परिणाम जुर्माना और जेल की सजा हो सकता है।

योजना बनाएँ

भांग खाद्य पदार्थ के सेवन का असर आप पर कश लेने के मुकाबले अधिक समय तक रहता है। बेशक अध्ययन भिन्न-भिन्न हैं, भांग खाद्य पदार्थ का असर आपके शरीर में 12 घंटे तक रह सकता है। भांग खाद्य पदार्थ का नशा कश लेने के मुकाबले अलग और विलंबित हो सकता है। भांग खाने से पहले योजना बनानी ज़रूरी है। राइड शेयर नियमित करें, ड्राइवर नियुक्त करें या घर पर ही शाम बिताएँ - बस ड्राइव बिल्कुल ना करें।

समय लें

अगर भांग खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो मात्रा और टी ऐच सी स्तर के आधार पर इसका प्रभाव विलंबित हो सकता है। भांग का नशा कितनी देर में होता है इस पर भी निर्भर है की इसका सेवन आपने खाली या भरे पेट पर किया है। भांग का सेवन करने के बाद सुरक्षित, आरामदेह जगह में रहें।

आँकड़े समस्या दर्शाते हैं



50%

नौजवान कनेडियन्स का कहना है की भांग के सेवन के 5 घंटों के भीतर ड्राइव करना सुरक्षित है*



5 में से 1

नौजवान कनेडियन्स का कहना है की उन्होंने नशे में गाड़ी चलाई है या नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के साथ यात्रा की है*